

J. SINGH COMPETITION ACADEMY

“आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः”

“Let Noble thoughts come to you from all sides”

Amaha house civil lines Boda bag Road, Rewa (M.P)

Mob.9329249957

Time:- 1 : 00

कम्प्यूटर

पूर्णांक :-100

(टेस्ट पेपर – 8)

- सर्वर किसके द्वारा जुड़े रहते हैं—
 - Network**
 - Mainframe
 - Super Computer
 - Client
- MP3 क्या है—
 - Document format
 - Sound format**
 - Video Format
 - Image format
- सी, कोबोल, पास्कल, जवा आदि किसका उदाहरण है—
 - Low level language
 - High level language**
 - मशीन लैंग्वेज
 - Super level language
- कम्प्यूटर में जो आईसी चिप इस्तेमाल की जाती है, वह किसकी बनी होती है—
 - क्रोमियम
 - आयरन
 - सिलिका
 - सिलीकॉन**
- प्रिन्टर, की-बोर्ड, मॉडेम आदि डिवाइस और किस नाम से जानी जाते हैं—
 - एड ऑन डिवाइस
 - पेरीफेरल**
 - एक्स्ट्रा हार्डवेयर
 - online hardware
- सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है—
 - Chip**
 - Box
 - Circuit
 - Peripheral
- परम सुपर कम्प्यूटर किसके द्वारा बनाया गया है—
 - C-DAC**
 - IIT
 - बार्क
 - IBM
- Computer की भाषा में एक मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं—
 - 1,00,000
 - 10,00,000
 - 1 million bytes
 - 10,48,576**
- ENIAC का पूरा नाम है—
 - Electronic Numbers Internet and Computer
 - Electronic Numerical Integrator and Computer**
 - Electronic Numerical Interpreter and Computer
 - All of the above
- किस क्षेत्र के साथ Y2K समस्या संबंधित थी—
 - कम्प्यूटर**
 - नाभिकीय युद्ध

- b) प्राकृतिक विनाश
d) ये सभी
11. Signal की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं—
a) Repeater
b) Switch
c) Gateway
d) Router
12. प्रथम गणना यंत्र है—
a) घड़ी
b) डिफरेंस इंजन
c) अबैकस
d) कैल्कुलेटर
13. निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा विकसित सुपर कम्प्यूटर है—
a) परम पदम
b) फ्लोसाल्वर
c) चिप्स
d) अनुपम
14. आईबीएम का पूरा नाम—
a) Indian Business Machine
b) Italian Business Machine
c) International Business Machine
d) Integral Business Machine
15. Hybrid Computer में प्रयोग होता है—
a) Digital Signal
b) दोनों का
c) Analog Signal
d) किसी का नहीं
16. माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था—
a) IBM
b) Apple
c) Intel
d) HCL
17. निम्न में सबसे तेज कौन-सा है—
a) CD-ROM
b) RAM
c) Registers
d) Cache
18. प्रथम पीढ़ी के कम्प्यूटर में प्रयोग किया गया था है—
a) मेमोरी की क्षमता
b) सेकेण्डरी स्टोरेज क्षमता
c) मेमोरी एक्सेस टाइम
d) सेकेण्डरी स्टोरेज एक्सेस टाइम
19. वोलेटाइल मेमोरी कौन-सी है—
a) CPU
b) ROM
c) RAM
d) CU
20. किसी कम्प्यूटर प्रोग्राम में एरर क्या कहलाती है—
a) Bug
b) Antivirus
c) Virus
d) All of the above
21. Motherboard क्या है—
a) CPU Chip
b) एक सर्किट जो सीपीयू तथा अन्य चिप को व्यवस्थित रखती है।
c) Hard disk
d) कोई नहीं।
22. अधिकतम स्टोरेज क्षमता इनमें से किसमें होती है—
a) CD
b) RAM
c) Hard Disk
d) Floppy
23. BIOS का पूरा रूप है—
a) Basic Intra operating system
b) Basic internal output system

c) Basic input output system

d) Basic internal output system

24. वह कम्प्यूटर प्रोग्राम जो असेम्बली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है—
a) Compiler c) Interpreter
b) **Assembler** d) translator
25. Booting process के दौरान उनमें से कौन सिस्टम फाइल को चेक करता है—
a) CD b) **BIOS** c) CPU d) DVD
26. Daisy Wheel printer इनमें से किसका उदाहरण है—
a) Matrix printer c) Laser printer
b) **Impact printer** d) Drum Printer
27. ई-मेल में BCC का अर्थ है—
a) Bold carbon copy c) Brief carbon copy
b) All of the above d) **Blind carbon copy**
28. विश्व का सबसे तेज सुपर कम्प्यूटर कौन सा है—
a) **समिit** b) तिहान्हे-2 c) परम d) सेकोया
29. Protocol का उदाहरण है।
a) X.5 b) X.12 c) X.25 d) **b and c**
30. IP address कितने क्लासेस में विभाजित होते हैं
a) **4** b) 8 c) 6 d) 16
31. Internet Explorer पर उपलब्ध सभी पेजों को कहते हैं।
a) Page b) Linked Page c) **Web page** d) Hyperlink page
32. Internet में वेबसाइट सर्फिंग के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं
a) Cookie b) **browser** c) email d) yahoo
33. निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है
a) Ring b) Bus c) Star d) **Zigzag**
34. WAN का सबसे अच्छा उदाहरण है
a) VLAN b) **Internet** c) WWW d) Google
35. इनमें से कौन सा एंटीवायरस है
a) **नॉर्टन सॉफ्टवेयर** c) फारवॉल
b) गूगल d) ब्राउजर
36. इनमें से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है
a) **MS-DOS** b) Unix c) Windows d) Linux
37. Microsoft King किसे कहते हैं
a) **बिल गेट्स** c) सुंदर पिचई
b) मार्क जुकर बर्ग d) अजीत बालकृष्णन

38. Documents and Programs के नाम को दर्शाता है
a) Task bar b) **title bar** c) menu bar d) formatting bar
39. सबसे धीमी इंटरनेट सेवा कौन सी है
a) डिजिटल सबस्क्राइबर लाइन c) केबल मॉडेम
b) **डायलअप सेवा** d) लैन
40. इनमें से कौन सा साइबर क्राइम का उदाहरण नहीं है
a) **Internet banking** c) Cyber Attack
b) Cracking d) Computer Hacking
41. Server द्वारा एक से अधिक होम पेजों और इंटरनेट addresses को सपोर्ट करने की क्षमता कहलाती है।
a) मल्टी चैटिंग c) मल्टी कास्टिंग
b) मल्टी टास्किंग d) **मल्टी होस्टिंग**
42. कम्प्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है
a) Bytes b) kilobytes c) megabytes d) **bits**
43. आई एस पी का पूरा नाम है
a) **Internet service provider**
b) Instruction service provider
c) Integrated service provider
d) Internet system program
44. कुकीज कहाँ स्टोर होती है
a) Server b) **client** c) super computer d) network
45. निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है
a) **कैश मेमोरी** c) रैम
b) रोम d) मैग्नेटिक मेमोरी
46. भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कम्प्यूटर वायरस है—
a) **C-Brain** c) कोलम्बस
b) माइकल एंजेलो वायरस d) मैक बग
47. Tally Software का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है—
a) डॉक्यूमेंट तैयार करने में c) डाटाबेस तैयार करने में
b) **एकाउंटिंग** d) प्रस्तुतीकरण तैयार करने में
48. ई-मेल का जन्मदाता किसे कहते हैं—
a) सबीर भाटिया c) जैक किल्बी
b) **रे-टामलिंगसन** d) जॉन मॉचली
49. Cray क्या है
a) मिनी कम्प्यूटर c) मेनफ्रेम कम्प्यूटर
b) **सुपर कम्प्यूटर** d) माइक्रो कम्प्यूटर

50. OCR का पूरा नाम है—
a) Optical Coding Recognizer
b) Original Character reader
c) Optical character recognition
d) None of the above
51. निम्नलिखित में से कौन-सा सर्च इंजन नहीं है—
a) गूगल
b) ऑरकुट
c) साइंस डारेक्ट
d) अल्टा –विस्टा
52. ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है—
a) Web-Log b) Wave Log c) Web blog d) Bed lock
53. Spooler इनमें से क्या होता है—
a) हार्डवेयर
b) प्रिंटर
c) एक प्रोग्राम जो प्रिंटिंग कार्य को मैनेज करता है।
d) कोई नहीं
54. थ्रेशिंग इनमें से क्या होता है—
a) अपर्याप्त डिस्क स्पेस
b) डाटा की अदला –बदली किसी रैम और वर्चुअल मेमोरी के बीच
c) इंटरप्ट
d) कोई नहीं
55. निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है—
a) प्रोटोकॉल c) आर्ची
b) उपर्युक्त सभी d) लॉगिंग
56. इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कम्प्यूटर के प्रोसेस का अर्थ है—
a) गैदरिंग c) इनपुटिंग
b) डाउनलोडिंग d) अपलोडिंग
57. किस कम्प्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है—
a) FORTRAN b) BASIC c) COBOL d) PASCAL
58. SMPS का अर्थ है—
a) Switch mode power supply
b) Service mode power supply
c) Secure mode power supply
d) All of the above
59. Computer डाटा स्टोर एवं गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है—
a) Decimal b) Octal c) Binary d) Hexadecimal

60. Super Computer के लिए शब्द लंबाई की परास होती है—
 a) 16 bit b) 32 bit c) **64 bit** d) 128 bit
61. Binary number(101001100)₂ का Octal Number क्या होगा—
 a) (515)₈ b) **(514)₈** c) (504)₈ d) (415)₈
62. लिनक्स एक—
 a) **ऑपरेटिंग सिस्टम** c) सुपर कम्प्यूटर
 b) ग्राफिकल यूजर इंटरफेस d) सॉफ्टवेयर
63. दो या अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है—
 a) **multiprocessing** c) multiprogramming
 b) multitasking d) time sharing
64. MS-Word उदाहरण है—
 a) Operating system c) **Application Software**
 b) Processing software d) Hardware
65. C language है—
 a) Low level c) Machine level
 b) **High level** d) Compound level
66. Computer boot नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं है—
 a) Compiler c) **Operating system**
 b) Loader d) Assembler
67. निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है—
 a) मनोविज्ञान c) **सांख्यिकी**
 b) संदेश प्रेषण d) प्रकाशन
68. फायरवाल का काम है—
 a) सिस्टम को हैकरो के हवाले करना
 b) **सिस्टम को हैकरों से बचाना**
 c) सिस्टम की सारी जानकारी हैकरों को देना
 d) उपरोक्त सभी
69. Computer Virus नहीं है—
 a) Creeper b) code Red c) **Mcafee** d) CIH
70. स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहते हैं—
 a) डिलीटेड ई-मेल c) इनकमिंग ई-मेल
 b) ब्लूड –मेल d) **अनसॉलिसिटेड ई-मेल**
71. किसी संगठन के वेबसाइट का डॉट कॉम अंश सूचित करता है—
 a) एजुकेशन c) गर्वमेंट
 b) **कमर्शियल** d) संगठन

72. Advance Research Project Agency किसके विकास के लिए उत्तरदायी है—
a) वेबसाइट c) ई-मेल
b) इंटरनेट d) ऑनलाइन
73. वह डिवाइस जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ती है—
a) गेटवे c) बस
b) मेस d) रिपीटर
74. यदि डोमेन नेम के आखिर में .edu.us है तो यह है—
a) एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था
b) एक गैरलाभकारी संस्था
c) ऑस्ट्रेलिया की एक शैक्षणिक संस्था
d) अमेरिका की एक शैक्षणिक संस्था
75. W.W.W. protocol का उपयोग करता है—
a) FTP b) HTTPs c) PPP d) POP
76. एक वेबसाइट समूह है—
a) वेब पेजेस या एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का
b) ग्राफिक फाइलों का
c) मल्टीमीडिया
d) पोर्टल
77. इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैण्डर्ड प्रोटोकॉल है—
a) HTML b) HTTP c) TCP/IP d) OSI
78. Computer को इन्टरनेट से कौन जोड़ने में मदद करता है—
a) Browser b) Net Fit c) Windows d) CPU
79. सभी वेबसाइट्स तथा वेब पेज जो आपने एक समयावधि में देखे होते हैं, की जानकारी मिल जाती है—
a) Status baar c) History list
b) Task baar d) Tool baar
80. किसी वेब पेज को रीलोड करने हेतु किसका प्रयोग करते हैं—
a) Redo b) reload c) Restore d) Refresh
81. निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ई-मेल सेवा प्रदाता है—
a) Hotmail c) Yahoo
b) Rediffmail d) all of the above
82. Wi-Max निम्नलिखित में से किससे संबंधित है—
a) जैव प्रौद्योगिकी c) मिसाइल प्रौद्योगिकी
b) संचार प्रौद्योगिकी d) अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी
83. नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN है—

- a) **state wide area network**
b) system wide area network
c) state wise area network
d) system wise area network
84. चैटिंग है—
a) एक इंटरनेट स्टैंडर्ड
b) इंटरनेट एरिया जहाँ किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है
c) नेटवर्क पर संदेशों व फाइलों को भेजना
d) **एक रियल टाइम कन्वर्सेशन**
85. वीडियों काफ्रेंसिंग है—
a) दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियों कॉल का परिचालन
b) दूरभाष पर कॉल का परिचालन
c) दूरभाष प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन
d) उपर्युक्त सभी
86. डीपीआई दर्शाता है—
a) **डॉट पर इंच**
b) डाइग्राम पर इंच
c) डॉट्स पिक्सेल इंच
d) डिजिट्स पर इंच
87. निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है—
a) Internet Explorer
b) **MSN**
c) Google Chrome
d) Vivaldi
88. Ctrl ,Alt and Del बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है—
a) **कम्प्यूटर को रीसेट करने के लिए**
b) कम्प्यूटर की सूचना को समाप्त करने के लिए
c) स्क्रीन की सूचना को नष्ट करने के लिए
d) इनमें से कोई नहीं
89. आब्जेक्ट की प्रोपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है—
a) Dragging b) Dropping c) **Right Click** d) left click
90. निम्न में से कौन सा पिक्चर फाइल फॉर्मेट ज्यादा कलर प्रदर्शित करता है—
a) GIF b) **JPEG** c) AVI d) BMP
91. Computer language JAVA के आविष्कारक कौन है—
a) IBM b) Microsoft c) **Sun Microsoft** d) Apple
92. वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग भाषा में अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है, कहलाते हैं—
a) Control words b) **Reserved words** c) Control structure d) constant
93. scanner documents को किस रूप में सेव करता है—
a) Doc files b) **Bitmaps** c) RTF files d) HTML files

94. HTML में एक लिंक को दूसरे यूआरएल के साथ जोड़ने हेतु टैग काम करता है—
a) **<A>** b) **<h1>** c) **<U>** d) **<h6>**
95. Amazon.com निम्न मॉडल का प्रकार है—
a) B2B b) **B2C** c) C2C d) C2B
96. Outlook express है—
a) **E-Mail client** c) Address Book
b) Scheduler d) server
97. FDDI है—
a) **Ring Network** c) Mesh Network
b) Star Network d) Bus Network
98. इनमें से कौन —सा ई—मेल पता सही है—
a) John@gmail.com
b) raj@hotmail.com
c) ram@yahoo.co.in
d) सभी सही है।
99. सरकार के द्वारा कुछ उच्च कौशल के हैकर हायर किये गए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है—
a) Special Hacker
b) Government Hacker
c) Cyber Intelligence Agents
d) **Nation/ state sponsored hackers**
100. इनमें से कौन सा हैकर का कानूनी तरीका है जिसे IT industries and firms के द्वारा नौकरी दी जाती है—
a) Suicide Hacker c) **Ethical Hacker**
b) Hactivism d) Elite Hacker

J.singh competition academy rewa